



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

E EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3, 2005/माघ 14, 1926

No. 45]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 2005/MAGHA 14, 1926

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 57(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं (कर्मशाला कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 1988, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, में शिल्पकार क, ख, ग और घ (समूह ग और घ पदों) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, कर्मशाला कर्मचारिवृंद शिल्पकार श्रेणी (समूह ग तथा घ पदों) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	घयन अथवा अवयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय असैनिक सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. शिल्पकार 'क' श्रेणी	07* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	रु 4500-125- 7000	अवयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्पणित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)	(14)
<p>ऐसे शिल्पकार 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।</p>	<p>प्रोन्नति के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - अध्यक्ष</li> <li>2. उप निदेशक, राष्ट्रीय जल अकादमी, खडकवासला, पुणे - सदस्य</li> <li>3. प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. शिल्पकार श्रेणी 'ख'	82* (2005)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है )	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिणीय ।	4000-100-6000 रुपए	अवयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

383 GI/05-2

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा ।

(12)	(13)	(14)
<p>ऐसे शिल्पकार श्रेणी "ग" जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p>	<p>प्रोन्नति के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - अध्यक्ष</li> <li>2. उप निदेशक, राष्ट्रीय जल अकादमी, खडकवासला, पुणे - सदस्य</li> <li>3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे- सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. शिल्पकार श्रेणी 'न'	36* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित	3050-75-3950-80- 4590 रूपए	अचयन।	<p>18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए शिथिल करके 40 वर्ष की जा सकती है।)</p> <p><u>टिप्पण 1:</u> केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा अवसूचित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है।</p> <p><u>टिप्पण 2 :</u> अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई अन्य आयु शिथिलीकरण के साथ संचयी रूप से शिथिल की जा सकती है।</p> <p><u>टिप्पण 3 :</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के, लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पंगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p><u>टिप्पण 4:</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र, और,  (ii) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) या समतुल्य, तीन वर्ष के व्यवहारिक अनुभव के साथ, या  सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाणपत्र, दो वर्ष के व्यवहारिक अनुभव के साथ।  टिप्पण 1 : विशिष्ट शाखा, जिसमें शैक्षिक अर्हताएं और क्षेत्र जिसमें अनुभव अपेक्षित हैं, भर्ती के समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।  टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं।	दो वर्ष।	(i) शिल्पकार श्रेणी 'घ' से 10% प्रोन्नति द्वारा।  (ii) 90% सीधी भर्ती द्वारा।
(12)	(13)	(14)	
<u>प्रोन्नति:</u>  ऐसे शिल्पकार श्रेणी 'घ' जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।  टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के लिए):  3. मुख्य अनुसंधान अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - अध्यक्ष  4. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय जल अकादमी, खडकवासला, पुणे - सदस्य  5. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।	



-10-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. शिल्पकार श्रेणी 'घ'	14* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है )	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराज्यपत्रित, अनुसूचिवीय।	2650-65-3300-70-4000 रूपए।	लागू नहीं होता।	<p>18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई अन्य आयु शिथिलीकरण के साथ संवर्धी रूप से शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन द. त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	लागू नहीं होता।

383 6I/05-3

(8)	(9)	(10)	(11)
आठवें स्तर उत्तीर्ण तथा सुसंगत व्यवसाय में पांच वर्ष का अनुभव, और पांच वर्ष के अनुभव के स्थान पर, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) अर्हित व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा।  टिप्पण 1 : विशिष्ट शाखा, जिसमें शैक्षिक अर्हताएं और वह क्षेत्र जिसमें अनुभव अपेक्षित हैं, मर्ती के समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।  टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित स्थितियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी मर्ती द्वारा।
(12)	(13)	(14)	
लागू नहीं होता।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए):  1. मुख्य अनुसंधान अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - अध्यक्ष  2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय जल अकादमी, खडकवासला, पुणे - सदस्य  3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।	

[फा. सं. 2/2/2001-स्था. II]

गोपाल दास, अवर सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2005

**G.S.R. 57(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services (Workshop Staff), Recruitment Rules, 1988, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Craftsman A, B, C and D (Group C and D posts), in the Central Water and Power Research Station, Pune under the Ministry of Water Resources, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Workshop Staff, Craftsman Grade(Group C and D posts), Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of pay.**— The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person.-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,  
or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
1. Craftsman Grade 'A'	7* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.4500-125-7000.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Craftsman Grade 'B' with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	Departmental Promotion Committee Group 'C' for promotion, consisting of:- 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune – Chairman.	Consultation with Public Service Commission not necessary.

				seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Deputy Director, National Water Academy, Khadakwasla, Pune - Member. 3. Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member.	
1	2	3	4	5	6	7
2. Craftsman Grade 'B'.	82* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.4000-100-6000.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.
8	9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Craftsman Grade 'C' with eight years regular service in the grade.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee Group 'C' for promotion, consisting of:- 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman. 2. Deputy Director, National Water Academy, Pune - Member. 3. Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

82 GI/05-4

1	2	3	4	5	6	7
3. Craftsman Grade 'C'.	36* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Non-selection.	<p>Between 18 and 25 years</p> <p>(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note: 1.</b> Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time.</p> <p><b>Note: 2.</b> Relaxable cumulatively with any other age relaxation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes.</p> <p><b>Note: 3.</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).</p> <p><b>Note: 4.</b> In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	Not applicable.

-5-

8	9	10	11	12	13	14
<p>i) Secondary School Certificate, and</p> <p>ii) National Trade Certificate (Industrial Training Institute) or equivalent in the relevant trade with three years practical experience,</p> <p>OR</p> <p>National Apprentice Certificate in relevant trade with two years practical experience.</p> <p>Note 1: The particular discipline in which educational qualifications and areas in which experience are required shall be specified at the time of recruitment.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes at any stage of selection if the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy(ies) reserved for them.</p>	No.	Two years.	<p>(i) 10% By promotion from Craftsman Grade 'D'.</p> <p>(ii) 90% by Direct recruitment.</p>	<p>Promotion: Craftsman Grade 'D' with three years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee Group 'C' (for promotion/confirmation):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Research Officer/ Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman.</li> <li>2. Assistant Director, National Water Academy, Khadakwasla, Pune- Member.</li> <li>3. Administrative Officer, Central Water and Power Research Station Pune - Member.</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3	4	5	6	7
4. Craftsman Grade 'D'.	14* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Rs.2650-65- 3300-70- 4000.	Not applicable.	<p>Between 18 and 25 years</p> <p>(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note: 1.</b> Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time.</p> <p><b>Note: 2.</b> Relaxable cumulatively with any other age relaxation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes.</p> <p><b>Note: 3.</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India( and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Laddakh Division of Jammu &amp; Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).</p> <p><b>Note: 4.</b> In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names</p>	Not applicable.



8	9	10	11	12	13	14
<p>VIII Standard pass with five years experience in the relevant trade, and National Trade Certificate (Industrial Training Institute) qualified persons will be considered in lieu of five years experience.</p> <p>Note 1: The particular discipline in which educational qualifications and areas in which experience are required shall be specified at the time of recruitment.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes at any stage of selection if the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy(ies) reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment.	Not applicable.	<p>Departmental Promotion Committee Group 'D' (for confirmation):-</p> <p>1. Chief Research Officer/ Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman.</p> <p>2. Assistant Director, National Water Academy, Khadakwasla, Pune - Member.</p> <p>3. Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. 2/2/2001-E.III]  
GOPAL DASS, Under Secy.